



मुर्गी और कनखजूरा

- ✎ Winny Asara
- 👤 Magriet Brink
- 🗣️ Nandani
- 💬 Hindi
- 📊 Level 3







मुर्गी और कनखजूरा दोस्त थे। लेकिन उन्हें एक दूसरे से हमेशा शिकायत रहती थी। एक दिने उन्होंने फूटबॉल खेलने का फैसला लिया यह देखने के लिए की कौन अच्छा खिलाड़ी है।




वे फुटबॉल के मैदान में गए और अपना खेल उन्होंने शुरू किया। मुर्गी तेज़ थी, लेकिन कनखजूरा उससे भी तेज़। मुर्गी ने तेज़ी से लात मारी, पर कनखजूरे ने और जोर से मारा। मुर्गी को गुस्सा आने लगा।




उन्होंने ने पेनल्टी शूटआउट खेलने का फैसला लिया। पहले कनखजूरा क्षेत्र-रक्षक (गोल कीपर) बना। मुर्गी ने केवल एक गोल किया। अब गोल बचाने की बारी मुर्गी की थी।




कनखजूरे ने बॉल को मारा और गोल हो गया। कनखजूरे ने थपथपा कर बॉल को ले गया और गोल कर दिया। कनखजूरे ने सिर से बॉल को मारकर गोल किया। कनखजूरे ने कुल पांच गोल किए।




मुर्गी बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि वो हार गई। वह बुरी तरह हार गई। कनखजूरे ने हँसना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी दोस्त बेवजह गुस्सा कर रही थी।




मुर्गी बहुत गुस्सा हुई और उसने अपना बड़ा सा चोंच खोला और कनखजूरे को निगल गई।




जब मुर्गी घर जा रही थी, तब वह माँ कनखजूरे से मिली। माँ कनखजूरे ने पूछा “क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा?” मुर्गी ने कुछ नहीं कहा। माँ कनखजूरा परेशान थी।



तब माँ कनखजूरे ने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। “माँ मेरी मदद करो” आवाज़ चिल्लाई। माँ कनखजूरा ने आस पास देखा और ध्यान से सुना। आवाज़ मुर्गी के अंदर से आ रही थी।




माँ कनखजूरा चिल्लाई "मेरे बच्चे अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करो"। कनखजूरे में से बहुत गन्दी बदबू आती है और उनका स्वाद बहुत खराब होता है। मुर्गी बीमार महसूस करने लगी।



मुर्गी ने डकार मारी। उसके बाद उसने निगला और थूका। उसने छींका और खासा और खासा। गोज़र बहुत बेकार था!



मुर्गी तब तक खांसती रही जब तक कनखजूरा उसके पेट से बाहर नहीं निकला। माँ कनखजूरा और उसका बच्चा रेंग कर पेड़ पर छिप गए।



उस समय से मुर्गी और कनखजूरा दुश्मन हैं।



Storybooks Outline

global-asp.github.io/storybooks-outline

मुर्गी और कनखजूरा

Written by: Winny Asara

Illustrated by: Magriet Brink

Translated by: Nandani

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Outline](#) in an effort to provide children's stories in the world's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).